





फोन/Phone: 0129-2278018

संदर्भ सं./Ref. No. NH/CS/199

Corporate Relationship Department/ कॉर्पोरेट संबंध विभाग.

M/s BSE Limited/ बीएसई लिमिटेड,

Phiroze Jeejeebhoy Towers / फिरोज जीजीभोय टावर्स, Dalal Street,/दलाल स्ट्रीट,

Mumbai/ मुंबई -400 001

Scrip Code: 533098

Listing Department/ लिस्टिंग विभाग,

M/s National Stock Exchange of India Limited/ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex/ एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

Bandra (E)/ बांद्रा (ई), Mumbai/ मुंबई - 400 051

Scrip Code: NHPC

ISIN No. INE848E01016

Sub: Newspaper advertisement – 'Information regarding 49th Annual General Meeting to be held through VC/ OAVM, Book Closure and Record date'.

विषय: समाचार पत्र विज्ञापन — 'वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होने वाली 49वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और रेकॉर्ड तिथि के संबंध में सूचना'

Sir/महोदय,

In compliance to Regulations 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of public notice on the subject matter, published in newspaper advertisement on Friday, 8th August, 2025 in the following newspapers:

- a. Financial Express (English all editions)
- b. Jansatta (Hindi Delhi NCR edition)

This is for your record and information.

सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुपालन में, निम्नलिखित समाचार पत्रों में शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को विज्ञापन के माध्यम से विषय-वस्तु पर प्रकाशित सार्वजनिक सूचना की प्रतियां संलग्न प्राप्त करें:

- क. फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी- सभी संस्करण)
- ख. जनसत्ता (हिंदी-दिल्ली एनसीआर संस्करण) यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है। धन्यवाद।

भवदीय,

संलग्न : उपरोकतानुसार

(रूपा देब) कंपनी सचिव

OPENAI FOUNDER UNVEILS GPT-5, SAYS INDIA MAY BECOME TOP MARKET

One person has never been able to do more in history, says Altman

NANDAGOPAL RAJAN New Delhi, August 7

"THIS ERA WHERE one person can do more than any person, or every person, in history is incredibly exciting," OpenAI CEO Sam Altman said Thursday, unveiling GPT5, which he called a "major upgrade over GPT 40 and a

pretty significant step along

our path towards AGI (Artifi-

cial General Intelligence)". "One of the coolest things it can do is write you good, instantaneous software" and this "idea of software on demand is going to be one of the defining features of the GPT5", Altman added in a media briefing. GPT5, he said, is like having "a team of PhD level experts ready to go and help you with whatever your goals are".

Everyone to get GPT5

In an interesting change of strategy, OpenAI will release GPT5 for all users, including those without a premium subscription. While free users will see only GPT5 with the platform, paid users will have access to earlier models also. "All ChatGPT users are going to have access to the smartest, fastest and most useful model that we've ever launched," explained Nick Turley, head of ChatGPT,

OpenAl will release GPT5 for all users, including those without a premium subscription

SAM ALTMAN, CEO, OpenAl

OpenAI paying a lot of attention to India given growth rate

> ■ While free users will see only GPT5 with the platform, paid users will have access to earlier models also

remarkable

partners to

What citizens of India are

doing with AI, is really quite

OpenAI is especially focused

on bringing products to

India, working with local

■ Head of platform **Olivier Godement** said with thinking and reasoning, GPT5 is "significantly less likely to hallucinate"

texts and languages and at a

adding how the new model needs to respond instantly. had much better accuracy This is going to feel really and also a lower hallucination magical." rate than before. "For many users, especially

Head of platform Olivier Godement said with thinking and reasoning, GPT5 is "significantly less likely to hallucinate". "The model is more upfront. It's also more reliable," he added. **OpenAI** on India

Speaking about OpenAI's second largest market, Altman expressed hope that India "could well become our largest market in the world". "What citizens of India are

integrated into people's lives and businesses and started new companies with that". He said OpenAI was especially focused on bringing products to India, working with local partners to "make AI work great for India, make it more affordable for people across the country". He said the company is paying a lot of attention to India "given the rate of

doing with AI, is really quite

remarkable... the way it's been

Altman clarified that they have tried to make GPT5 better in different cultural con-

growth".

wide variety of different tasks. "So we think this is maybe the biggest single step forward we have ever taken in our mission of very broad global accessibility of a true frontier model." He said while this model is much faster, the team has done a great job of bringing costs down."To have a model at this level of capability at this cost is far beyond the frontier of any other system out in the world, which helps us be able to make this accessible," Altman underlined.

Uncertainty looms over women's ODI World Cup

IN A BIND

VENKATA KRISHNA B Chennai, August 7

THE FATE OF M Chinnaswamy Stadium hosting the ICC Women's ODI World Cup matches in September-November hangs in the balance with Karnataka State Cricket Association (KSCA) yet to get permission from local authorities to host the matches at the venue, where 11 people lost their lives in a stampede during Royal Challengers Bengaluru victory celebrations.

The Chinnaswamy Stadium, which is scheduled to host the World Cup opener on September 30 and one of the semifinals, is also in line to host the final if Pakistan doesn't qualify for the title clash. Given the uncertainty, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) has given the state association time till Saturday to get the necessary permission.

If not, the BCCI is planning to look at alternate options as it is keen to avoid any eleventh hour changes.

BCCI secretary Devajit Saikia said the board is aware of the situation and is in touch with the International Cricket Council."We have learnt about the issue and are in touch with KSCA.

"As things stand, they still need to get permission from the relevant authorities to host the World Cup matches. Since the tournament is beginning on September 30, we don't have enough time because ICC

■ Karnataka State Cricket Association yet to get nod to host games at Chinnaswamy Stadium



■ Venue scheduled to host World Cup opener on September 30

■ BCCI has given KSCA time till tomorrow to get necessary nod

panel raised redflags in report on safety measures

■ Probe

also needs clarity as early as possible. We have given them a couple of days. If they don't get the required permission by Saturday, then we will be looking at other venues to host these matches," Saikia said.

The probe commission set up by the Karnataka state government had raised several red-flags in its report regarding the safety measures in the stadium.

The KSCA, which was planning to host the Maharaja Cup T20, initially behind closed doors, has now moved the entire tournament to Mysuru as they were denied permis-

sion to host the matches at the Chinnaswamy.

The Chinnaswamy Stadium is one of the four venues in India that are scheduled to host the eight-team event. With Pakistan having its reservation to play in India, the ICC has allotted its fixtures to Colombo which is scheduled to host 11 matches. With teams set to criss-cross between India and Sri Lanka, the reason why the organisers picked Bengaluru as a venue was that it has an airport that includes an immigration centre and is closer to Colombo with an air time of 90 minutes.

Apart from the opening fixture, Bengaluru is also scheduled to host England vs South Africa (October 3), India vs Bangladesh (October 26) and second semifinal (on October 30). It is also in line to host the final in case Pakistan doesn't qualify.

'Unfit for mass gathering'

Justice John Michael Cunha, who headed the probe commission set up by the state government to investigate the stampede that occurred on June 4, in his report has 'strongly' recommended that 'stadium authorities consider relocating events that are expected to attract large crowds to venues that are better suited for such large gatherings.' Since the stampede, the venue's safety has come under sharp focus.

'Donald Trump' applies for Bihar residency, FIR filed

HIMANSHU HARSH Patna, August 7

IN BIHAR'S SAMASTIPUR district, an application was submitted through the government's RTPS (Right to Public

Services) portal seeking a resi-

dential certificate in the name

of "Donald John Trump." The application, dated July 29, listed the applicant's father as "Frederick Christ Trump," with the residence address mentioned as Hasanpur, Ward 13, Bakarpur Post, Mohiuddin Nagar Block, Samastipur.

The supporting documents included a photograph of US

एल बी सी सी

A Navratna CPSE

Particulars

Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities before Tax (before Exceptional Items)

Total Income from Operations

respective meetings held on August 07, 2025.

and Company's Website (www.nbccindia.in).

(face Value of ₹ 1.00 per share) for the financial year 2025-26.

period classification and negative figures have been shown in brackets.

President Trump and a forged Aadhaar card, which immediately raised suspicion upon review, officials said.

a free ChatGPT user, this is

going to be the first introduc-

tion to reasoning," he added.

Interestingly, ChatGPT will

also become easier to use as

there will now be no need to

choose the model you want to

run. "People will not have to

think about the model's rea-

soning. In fact, you just use

GPT5, and it will think what it

needs to think, and it will

respond instantly when it

Upon closer inspection, the Revenue Officer of Mohiuddin Nagar discovered several irregularities, including tampered photo IDs, barcode distortions, and altered personal details, prompting her to reject the application outright on August 4.

The bizarre incident surfaced as the latest in a string of dubious requests. Since the beginning of the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in poll-bound

Redevelopment लक्ष्मीकि NBCC

01-31.72%

(YoY)

Standalone _____

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their

Comparative figures have been regrouped/recasted/rearranged wherever deemed necessary to conform to current

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter Financial Results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the

Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com/ www.nseindia.com) Scan the QR to view

The supporting documents included a photograph of US President Trump and a forged Aadhaar card, which immediately raised

suspicion upon review

Bihar, there has been a noticeable surge in applications for residential certificates. However, these certificates — a mandatory document required by the Election Commission for voter card verifi-

cation — have also been

attracting illegal applications, officials said.

The Samastipur district administration labelled the application as part of a more extensive attempt to undermine the integrity of Bihar's digital governance system and mislead the ongoing electoral roll revision process.

Authorities said the use of fraudulent documents, including a fabricated Aadhaar card, appeared to be a clear case of cyber fraud. Misuse of the RTPS system through fictitious applicants and forged documents has become increasingly fre-

Q1-26.15%

(YoY)

Year Ended on

31.03.2025

(Audited)

8,72,535.55

72,571.67

Consolidated ____

quent, they say, with officials now systematically rejecting such applications and regis-

tering formal FIRs. An FIR has been lodged at the Samastipur Cyber Police Station under Sections 318(4) and 336(4) of the BNS (pertaining to forgery and use of forged documents), and Sections 66(c) and 66(d) of the Information Technology Act, 2000 (related to identity theft and online fraud), for further

Last month, a similar application was submitted under the name "Dog Babu" at the Masaurhi Circle Office

Q1- 25.97%

(YoY)

30.06.2025

(Unaudited)

2,39,118.59

18,145.11

investigation.

in Patna. The case went viral after it was revealed that a residence certificate application was filed using an image of a dog. A full-scale investigation led to the arrest of a staff member of the Circle Office for allegedly submitting the fake application and sharing it online.

Other districts have also reported unusual applications in the names of animals and vehicles. Shortly after the Dog Babu case, an application was filed in Nawada in the name of "Dogesh Babu," with "Dogesh ke papa" and "Dogesh ki mummy" listed as parents.

NHPC Limited (A Government of India Navratna Enterprise) CIN: L40101HR1975G0I032564 Regd. Office: NHPC Office Complex, Sector- 33, Faridabad-121003 (Haryana) E-mail:companysecretary@nhpc.nic.in, EPABX No.: 0129-2588110 / 2588500 Website: www.nhpcindia.com

INFORMATION REGARDING 49th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), BOOK

CLOSURE DATES AND FINAL DIVIDEND

. The 49th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conference (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) on **Saturday**, August 30, 2025 at 11:00 A.M. (IST), deemed to be held at the Registered Office of the Company, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act), the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 & other circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 to

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and Annual Report 2024-25 will be sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA)/ Depository Participant(s) (DP)

transact the businesses that will be set forth in the Notice of the AGM

Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their DP. In respect of shares held in physical form, Members may register their email id by writing to the Company/RTA of the

Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of SEBI LODR, the Company is in the process of sending letters to members whose email ids are not registered with Company/RTA/DP providing weblink of Company's

website where Annual Report 2024-25 can be accessed The Annual Report 2024-25 including Notice of the AGM will also be available on the Company's website at www.nhpcindia.com, on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and on the website of e-voting service provider i.e. M/s National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with relevant rules and Regulation 42 of SEBI (LODR), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, August 21, 2025 to Saturday, August 30, 2025 (both days inclusive). The Board of Directors, in their meeting held on February 07, 2025 had declared an interim dividend @ 14% (₹ 1.40 per equity share) on the paid up equity share capital of the Company which was paid in March, 2025. Further, the Board of Directors, in their meeting held on May 20, 2025 had recommended a final dividend @ 5.10% (₹ 0.51 per equity share) for the financial year 2024-25, subject to approval of shareholders at the ensuing 49th AGM. The Company has fixed Thursday, August 14, 2025 as "Record Date" for determining the entitlement of members to receive final dividend, if declared at the AGM. The members, whose names appear in the register of members/list of beneficial

Members who are holding shares in dematerialized mode and want to update the bank account details should contact their concerned DP. Members holding shares in physical form are advised to submit particulars of their bank account, viz. name and address of the branch of the bank, MICR code of the branch, type of account and account number to RTA of the Company. Members are also requested to opt for the Electronic Clearance System (ECS) mode to receive dividend on time. SEBI vide its circular dated November 3, 2021 (subsequently amended by Circulars dated December 14, 2021, March 16, 2023 and November 17, 2023) has mandated that with effect from April 1, 2024, dividend to security holders (holding securities in physical form), shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after furnishing the PAN, contact details including mobile number, complete bank account details and specimen signature

owners as on the record date, will be entitled to receive final dividend.

In case of shares held in dematerialized mode- Register/ update their email id and/or KYC details with their respective DP, as per the process

Members are requested to update/register their email id and/or KYC details

In case of shares held in physical mode- Register/ update the email and/or KYC details with the Company / RTA by submitting duly-filled

form ISR-1. For further details, please visit website of the Company i.e www.nhpcindia.com.

9. Manner of casting vote(s) through e-voting: . In terms of Section 108 of the Act read with relevant Rules, Regulation 44 of

SEBI LODR (as amended) and MCA Circulars, the Resolutions for consideration at the 49th AGM will be transacted through remote e-voting (i.e. facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL). The manner of remote e-voting prior to the AGM or through e-voting system during the AGM by the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the

Company. . Members attending the AGM through VC/ OAVM shall be reckoned for the purpose of auorum under Section 103 of the Act.

The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available through the various modes as may be provided in the Notice, which will be sent through email and made available on website of the Company. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting

vote through remote e-voting and e-voting during the AGM. The above information is being issued for the benefit of all the members of the

Company and is in compliance with the Act and MCA circulars.

Contact Details of RTA are as under:

Contact Details Name and Address Phone: 040 67162222, 040 7961 1000 M/s KFin Technologies Limited, Selenium Building, Tower B, Plot No 31 Toll free No.: 18003094001

& 32, Financial District, Nanakramguda, Email: einward.ris@kfintech.com Serilingampally, Hyderabad Website: www.kfintech.com

Rangareddi, Telangana - 500 032 !!KIND ATTENTION!!

Shareholders who have not yet updated their KYC are requested to update the KYC-PAN (linked with Aadhar), Address with PIN Code, Bank details, Nomination, Mobile and Email ID through DP (in case of electronic

For and on behalf of NHPC Limited (Rupa Deb)

Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities before Tax (after Exceptional Items) 15,312.83 18,622.76 11,624.73 62,975.76 18,145.11 24,905.04 47,611.11 13,503.27 18,266.73 Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities after Tax (after Exceptional Items) 11,407.78 13,718.93 8,662.71 44,674.16 13,178.23 14,988.82 Total Comprehensive Income after taxes and Non Controlling Interest 11,380.11 11,114.20 8,652.24 27,000.00 27,000.00 Paid up Equity Share Capital 27,000.00 27,000.00 18,000.00 27,000.00 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet. 2,05,760.48 Earnings Per Share (from continuing & discontinuing Operations) (of ₹ 1/- each) (Not Annualised for the Quarters): 0.49 (a) Basic (in ₹) 0.42 0.51 0.32 1.76 0.65 0.32 0.65 0.42 0.51 1.76 0.49 (b) Diluted (in ₹)

Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended on June 30, 2025

30.06.2025

(Unaudited)

1,65,546.69

15,312.83

01-31.69%

(YoY)

The Consolidated & Standalone financial results for the quarter ended June 30, 2025 have been limited reviewed by statutory auditors of the company. The Statutory Auditors have expressed unmodified conclusion on Consolidated & Place: New Delhi Date : August 07, 2025 The Board of Directors in its meeting held on August 07, 2025 have declared 1st Interim Dividend of ₹ 0.21 per share

Standalone

30.06.2024

(Unaudited)

1,62,733.73

11,624.73

Quarter Ended on

31.03.2025

(Audited)

3,21,753.45

28,218.67

NBCC (INDIA) LIMITED

(A Government of India Enterprise) A Navratna Company Regd. Address: NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003

Consolidated

30.06.2024

(Unaudited)

2,14,253.44

14,384.26

14,384.26

10,719.48

10,451.77

18,000.00

0.39

0.39

Quarter Ended on

31.03.2025

(Audited)

4,64,254.66

34,500.95

CIN-L74899DL1960G0I003335

epaper.financialexpress.com

detailed financial results

(K. P. Mahadevaswamy) Chairman & Managing Director (DIN: 10041435)

For and on behalf of NBCC (INDIA) LIMITED

(₹ in Lakh)

Year Ended on

31.03.2025

(Audited)

12.03.857.24

85,097.52

75,501.61

55,742.46

51,156.97

27,000.00

2.00

2.00

2,20,905.69

holding)/RTA(in case of physical holding). Shareholders whose transfer request was rejected/ returned/ not attended to due to deficiency in the documents/ process/ or otherwise prior to

Dated: August 07, 2025

01.04.2019 and who could not re-lodge the transfer request by 31.03.2021 are requested to re-lodge the same latest by 06.01.2026, with the Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company.

Company Secretary

Place : Faridabad New Delhi

यम्ना नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार

करने के बाद

गुरुवार को बाढ़ से

बचने के लिए

सुरक्षित इलाकों में

जाते नदी किनारे

रहने वाले लोग।

राजधाना-

अधिकतम-३३.८

न्यूनतम- २६.१

जनसता 8 अगस्त, 2025

संपत्ति पंजीकरण आसान, एनओसी और एलएसआर की जरूरत नहीं

भारतीय पंजीकरण अधिनियम-1908 के तहत निर्धारित शर्तों पर ही दस्तावेज होंगे पंजीकृत

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 7 अगस्त।

दिल्ली सरकार ने संपत्ति पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया है। अब अधिकतर मामलों में संपत्ति पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और भूमि स्थिति रपट (एलएसआर) की जरूरत नहीं होगी। यह निर्णय सरकार ने लोगों को 'जीवनयापन में आसानी' (ईज आफ लिविंग) और 'व्यापार करने में आसानी' (इज आफ डइंग बिजनेस) की योजना को अमल में लाते हुए किया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आमतौर पर देखा गया कि आम जन को पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम-डीएम कार्यालय में राजस्व या जमीन से जुड़े मामलों में असुविधा का सामना करना पडता है और जहां आवश्यक नहीं है, वहां भी उन्हें एनओसी पाने के लिए कतारों में लगना पड़ता है। अब भूमि पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और भूमि स्थिति रपट (एलएसआर) की आवश्यकता नहीं होगी। इन समस्याओं को दूर करते हुए यह निर्णय लिया गया है। गुप्ता ने बताया कि अब केवल सीमित मामलों में ही

खेल व युवा मामलों का विशेष विभाग बनाएगी सरकार : रेखा दिल्ली की ओलिंपिक संघ, विभिन्न सरकारी विद्यालयों और खेल प्रशिक्षण केंद्रों से आए बच्चों ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली में खेल और युवा मामलों के लिए अब अलग विभाग बनेगा, जिससे

खिलाड़ियों को जरूरत के मुताबिक सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी राजधानी में क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र (कोचिंग सेंटर) स्थापित किए जाएंगे, ताकि कोई भी खिलाड़ी संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे। रेखा गुप्ता ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि उनका सपना है कि दिल्ली का हर बच्चा आत्मनिर्भर, सशक्त और आत्मविश्वासी बने।

एनओसी/एलएसआर की आवश्यकता रहेगी, यानी केवल उन मामलों में जहां दिल्ली लैंड्स (स्थानांतरण पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1972 की धारा 8 या ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (संघनन और खंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 30 लागु होती है। अन्य सभी मामलों में राजस्व विभाग से किसी अनुमित की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जब तक कानून में स्पष्ट रूप से आवश्यक न हो, तब तक पंजीकरण के लिए एनओसी या एलएसआर अनिवार्य नहीं होगा। उप-पंजीयक केवल कानूनी आधार पर दस्तावेजों का पंजीकरण करेंगे और भारतीय पंजीकरण अधिनियम-1908 के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार ही दस्तावेज पंजीकृत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बदलाव को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पारदर्शिता व सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। जैसे 'क्रेता सावधान रहे' (बायर बीवेअर) नियम लाग किया जाएगा, जिससे खरीदार भमि की स्थिति और स्वामित्व की जांच स्वयं

स्वतंत्रता दिवस : दस हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 7 अगस्त।

स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) और पुलिस उपायुक्तों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो लाल किले पर कई सुरक्षा घेरे होंगे। अधिकारी ने बताया कि प्रत्यक्ष तैनाती के अलावा, सीसीटीवी, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और चेहरे की पहचान तकनीक के जरिए आयोजन स्थल और आसपास के इलाकों की निगरानी की जाएगी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जमीनी स्तर पर, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रात्रि गश्त और पैदल गश्त में वृद्धि और सादे कपड़ों में निगरानी दल तैनात किए जा रहे हैं।

करिअर संबंधी मार्गदर्शन के लिए सीबीएसई ने की पहल

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 7 अगस्त।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 'करिअर गाइडेंस डैशबोर्ड' और 'काउंसलिंग हब एवं स्पोक स्कूल माडल' नामक दो पहल की हैं। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए करिअर मार्गदर्शन को अधिक सुलभ बनाना और उनके मानसिक-सामाजिक कल्याण को मजबूत करना है।

अधिकारियों ने बताया कि ये पहल करिअर संबंधी मार्गदर्शन के लिए संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ करेंगी और छात्रों के समग्र मनोसामाजिक कल्याण को बढ़ावा देंगी। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि दोनों पहल विद्यालयों और छात्रों को लाभान्वित करने के लिए की गई हैं और इनमें हितधारकों की सिक्रय प्रतिक्रिया के जरिए सुधार किया जाता रहेगा। ये पहल छात्रों को उनके करिअर विकल्पों को समझने और सही दिशा चुनने में मदद करने के लिए हैं। सीबीएसई के बेवसाइट पर इनका लिंक उपलब्ध होगा जिसके जरिए छात्र, शिक्षक और स्कूल लीडर्स कई उपयोगी सुविधाएं और जानकारी ले सकेंगे। यह छात्रों को उनके करिअर विकल्पों की जानकारी देता है और उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार सही दिशा चुनने में मदद करता है।

केंद्र से मिली अनुमति, 31 अगस्त तक मिलेगा राशन

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 7 अगस्त।

केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा गुरुवार को आदेश जारी कर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को अगस्त का राशन वितरण करने की समय सीमा को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। दरअसल, केंद्र सरकार की

ओर से जून, जुलाई व अगस्त 2025 का राशन वितरण करेने के लिए 31 जुलाई 2025 तक का *दिल्ली* के करीब समय दिया गया था लेकिन उठान में देरी व अन्य तीन लाख से तकनीकी कारणों के चलते राशन वितरण समय से अधिक कार्डधारी नहीं हो पाया और दिल्ली में ही तीन लाख से अधिक नहीं ले पाए थे लाभार्थी राशन लेने से वंचित रह गए थे।

बता दें कि, इस समस्या को लेकर जनसत्ता में

चार अगस्त 2025 को प्रमुखता से खबर प्रकाशित हुई थी, 'अगस्त माह का राशन रुका, लाखों लाभार्थी परेशान'। इस खबर के बाद अब अगस्त माह के राशन वितरण की अवधि को बढ़ा दिया गया है। विभाग के संयुक्त निदेशक सार्वजनिक वितरण जय पाटिल ने गुरुवार को सभी राज्यों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव व सचिव को आदेश जारी किया गया। इस आदेश में 31 अगस्त 2025 तक आबंटन अवधि बढ़ाई गई है जोकि पहले 31 जुलाई 2025 थी। इस आदेश में यह भी साफ किया गया है कि जून व जुलाई 2025 का माह के राशन का वितरण अगस्त में नहीं किया जा सकेगा।

सनिश्चित करेंगे, भिम की स्थिति से संबंधित जानकारी सरकारी पोर्टल पर नियमित रूप से

अद्यतन (अपडेट) की जाएगी। एन एच पी सी लिमिटेड

CIN: L40101HR1975G0I032564 पंजीकृत कार्यालयः एनएचपीसी कार्यालय परिसर्, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) ई—मेलः companysecretary@nhpc.nic.in, ईपीप्रीएसम नः 0129-2588110 / 2588500,

वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 49वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोज़र तिथियों और अंतिम लाभांश के संबंध में सूचना

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 19 सितंबर, 2024 के सामान्य 9/2024 व तत्संबंधी अन्य परिपत्र और दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के सेबी के परिपत्र स सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2024 / 133 के साथ पिठत राजा / १५०० (१८५५) (१८५५) वर्षा के तहत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) व इसके तहत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता(लिस्टिंग) बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर) के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सूचना में विनिर्दिष्ट कारोबार को संपादित करने हेतु कंपनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से शनिवार, 30 अगस्त 2025 को सुबह 11.00 बजे (भारतीय समयानुसार) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की

सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कपनी /रजिस्ट्रार और शैयर ट्रांसफर एजेंट(आरटीए) / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (ऑ) (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं।

जिन सदस्यों ने अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में घारित शेयरों के मामले में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(याँ) (डीपी) के माध्यम से डिपॉजिटरी में अपना है—सेन पता पंजीकृत करवा लें। भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में, सदस्य कंपनी / कंपनी के आरटीए को लिखित रूप से मेजकर अपना ई—मेल आईडी पंजीकृत करवा लें।

इसके अतिरिक्त, सेबी एलओडीआर के विनियमन 36(1)(ख) के अनुसार, कंपनी उन सदस्यों को पत्र भेजने की प्रक्रिया में है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं हैं। उस पत्र में कंपनी की वेबसाइट का वेबलिंक उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 का

अवलाकन कियो जा सकता है। वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात मैसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ब रहेगी । संबंधित नियमों के साथ पठित अधिनियम की घारा 91 के प्रावधानों और सेबी (एलओडीआर) के विनियग

42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक गुरुवार, 21 अगस्त 2025 से फरवरी, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 14% (1.40 रुपए प्रति इविवटी शेयर) की दर से अंतरिम लामांश घोषित किया था, जिसका मुगानान मार्च, 2025 में किया गया था। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 20 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्षया निर्मात है। तेता करिया निर्माण करिया । यह स्थान करिया के वर्ष क्षेत्र करिया करिया करिया करिया है। वर्ष वर्ष 2024—25 के लिए 5.10% (0.51 रुपए प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतिम लागांश की सिफारिय की थी, जो आगामी 49वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी ने का था, जा जाजाना मुख्य तामक जान बच्च में रायरातियां के जुनात्म के जवान है। जन्मी न वार्षिक आम बैठक में घोषित होने पर, अंतिम लामांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु **गुरुवार, 14 अगस्त, 202**5 को "रिकॉर्ड तिथि" के रूप में निर्धारित किया है। जिन सदस्यों के नाम रिकॉर्ड तिथि पर सदस्य के रजिस्टर/लामार्थी की सूची में शामिल होंगे, वे अंतिम लामांश प्राप्त

जिन सदस्यों ने डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर धारित किए हुए हैं और वे बैंक खाते का विवरण बदलवाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने संबंधित डीपी से संपर्क करना चाहिए। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते का विवरण, जैसे बैंक की शाखा का नाम और पता, शाखा का एमआईसीआर कोड, खाते का प्रकार और खाता संख्या, कंपनी के आरटीए नाम आर पता, शाखा का एमआइसाआर काड, खात का प्रकार आर खाता संख्या, कपना के आरटाए को प्रस्तुत करें। सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे समय पर लामांश प्राप्त करने के लिए इत्लेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीएस) मोड का विकल्प चुनें। सेबी ने 3 नवंबर, 2021 के अपने परिपन्न (जिसे बाद में 14 दिसंबर, 2021, 16 मार्च, 2023 और 17 नवंबर, 2023 के परिपन्नों द्वारा संशोधित किया गया) के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि 01 अप्रैल, 2024 से प्रतिभूति धारकों (भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले) को लामांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा । ऐसा भुगतान केवल पैन, मोबाइल नंबर सहित संपर्क विवरण, बैंक खाते का पूरा विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी ईमेल आईडी और / या केवाईसी विवरण निम्नानुसार

अपडेट / पंजीकृत करें: क. डीमैट मोड में धारित शेयरों के मामले में — अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार, अपने संबंधित डीपी के साथ अपनी ईमेल आईडी और / या केवाईसी विवरण पंजीकृत / अपडेट करवाएं। ख. भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में — विधिवत भरा हुआ फॉर्म ISR-1 प्रस्तुत करवे कंपनी / आरटीए के साथ ईमेल और / या केवाईसी विवरण पंजीकत / अपडेट करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया कंपनी की वैबसाइट <u>www.nhpcindia.com</u> का अवलोकन करवाएं। ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीकाः

-वाटा के माध्यम से वाट डालन का तराका. प्रासंगिक सुसंगत नियमों, सेबी एलओडीआर (यथा संशोधित) के विनियमन 44 और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की घारा 108 के अनुसार, 49वीं एजीएम में विचारार्थ प्रस्तावों पर रिमोट ई—वोटिंग (अर्थात एजीएम से पहले वोट डालने की सुविधा) के माध्यम से तथा एजीएम के दौरान भी ई—वोटिंग के माध्यम से विचार किया जाएगा, जिसके लिए कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं नियोजित की हैं। वार्षिक आम बैठक से पहले या वार्षिक आम बैठक के दौरान ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से डीमैटेरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए सूचना में रिमोट ई–वोटिंग का तरीका दिया जाएगा। इसका विवरण कंपनी की

वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। ख. वी.सी./ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की अधिनियम की धारा 103 के

तहत कोरम के प्रयोजनार्थ गणना की जाएगी। ई—बोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेशियल नोटिस में प्रदान विभिन्न तरीकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा और कंपनी की वेबसाइट

सदस्यों से अनुरोध हैं कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई सभी टिप्पणियों और विशेष रूप से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए अनुदेश, रिमोट ई—वोटिंग और वार्षिक आम बैठक के दौरान ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढें।

यह सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए और एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में जारी की गई है।

आरटीए का संपर्क विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक: अगस्त 07, 2025

स्थान : फरीदाबाद

नाम और पता संपर्क विवरण मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड T: 040 6716 2222, 040 7961 100 सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, टोल-फ्री नंबर: 1800 309 4001 ईमेलः einward.ris@kfintech.com बसाइटः www.kfintech.com त्रंगाना, भारत- 500 032

!!कृपया ध्यान दें!! जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना केवाईसी अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे केवाईसी—पैन (आधार से लिंक), पिन कोड के साथ पता. बैंक विवरण नामांकन, मोबाइल और ईमेल आईडी को डीपी (इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के मामले में) / आरटीए (भौतिक होल्डिंग के मामले में) के

जिन शेयरधारकों का अंतरण अनुरोध दस्तावेजों / प्रक्रिया / या अन्यथा के कारण दिनांक 01.04. 2019 से पहले अस्वीकृत / वापसँ कर दिया गया / नहीं लिया गया और जो दिनांक 31.03.2021 तक अंतरण का अनुरोध पुनः दर्ज नहीं कर सके, उनसे अनुरोध है कि वे दिनांक 06.01.2026 तक कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास इसे पुनः दर्ज करा दें।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

(रूपा देब) कम्पनी सचिव

यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, चेतावनी स्तर पार सरकार का दावा : आइटीओ बैराज के सभी गेट खुले, 2023 जैसे नहीं होंगे हालात

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 7 अगस्त।

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार को 204.50 मीटर के चेतावनी स्तर को पार कर गया। पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर 204.99 मीटर रेकार्ड किया गया। इसके मद्देनजर संभावित बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए एहतियातन कदम उठाने के लिए सभी संबंधित एजंसियों को सतर्क कर दिया गया है।

दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री 12 नंबर रेगुलेटर तक गए और नदी किनारे के संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और अब तक की तैयारियों की समीक्षा भी की। प्रवेश वर्मा ने बताया कि यमुना के जलस्तर के चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंचने की वजह हरियाणा स्थित हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी है। हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह मौसमी और सामान्य स्थिति है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।


उन्होंने कहा कि इस मौसम में यमना का



जलस्तर सामान्य रूप से बढ़ता है। विभाग पूरी तरह सतर्क और सिक्रय है। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि आइटीओ बैराज के सभी गेट खुले हुए हैं। वर्ष 2023 की तरह इस बार कोई गेट बंद नहीं है, जिससे जलप्रवाह में कोई रुकावट नहीं आ रही है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है और संबंधित उपजिलाधिकारी निगरानी बनाए हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करने योजना तैयार है। प्रवेश वर्मा ने यह भी अपील की कि

वह केवल सरकारी स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाहों से बचें।

अधिकारियों की माने तो इस मानसून में पहली बार, हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया और यह सुबह करीब छह बजे 61,000 क्यूसेक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अधिकारी ने बताया कि तब से हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे 50,000 क्युसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं।



ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियम 1993) के नियम 12 और 13 के साथ पठित बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 की धारा 19(4) के तहत प्रतिवादी को सम्मन। ओ.ए.सं. 756/2024

यूनियन बैंक ऑफ इंडिय

मेसर्स व्हाइट लायन बॉटलिंग एंड इंडस्ट्रीन मेसर्स व्हाइट लायन बॉटलिंग एंड इंडस्ट्रीज, केएच नंबर 110, गली नंबर 3, विकास नगर, सदीव नगर, गाजियाबाद 201001 में स्थित, इसकी प्रोपराइटर —सुश्री नवनीत कौर पुत्री श्री हरदीप कौर जॉली- प्रतिवादी संख्या 2

जेंट या कानूनी पेशेवर के माध्यम से दस्तावेजों और हलफनामों (यदि कोई हो) के साथ दो सेटों ग पर बक फॉर्म में जवाब / साक्ष्य दाखिल करने की आवश्यकता है. सम्मन के प्रकाशन के बाद आवेदव ा उसके वकील ∕ विधिवत अधिकृत एजेंट को इसकी प्रति प्रस्तृत करने के बाद और उसके बाद आपक र सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा

रजिस्टा



एक प्रमुख होम फाइनेंस कंपनी के पास New Delhi ਸੇਂ "As is where is, what is there is" आधार पर रेसिडेंशियल

प्रॉपर्टीज बिक्री के लिए उपलब्ध है

रेसिडेंशियल इंडिपेंडेंट हाउस प्रॉपर्टी खसरा नं. 573, पी.ओ. महिपालपुर विस्तारित लाल डोरा,

ग्राम रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 में स्थित है ਲੇਂਡ: 945 sq.ft.

रिज़र्व प्राइस: ₹ 84,48,503/-बिल्ट अप: 2133 sq.ft.

रेसिडेंशियल फ्लॅटस् प्रॉपर्टी नं. एम-60, तीसरी मंजिल सामने की ओर फ्लैट छत के सहित,

ग्राम ख्याला, एम ब्लॉक, श्याम नगर, दिल्ली - 110018 बिल्ट अप: 837 sq.ft. रिज़र्व प्राइस: ₹ 66,44,106/-

प्रॉपर्टी नं. 146-अ, प्रथम मंजिल, खसरा संख्या 86, हरि नगर, आश्रम, दिल्ली - 110014 में स्थित है बिल्ट अप: 810 sq.ft. रिज़र्व प्राइस: ₹ 53,94,600/-

> 7 दिनों के भीतर साइट विज़िट शेड्यूल करने के लि कॉल करें: 99208 79111 (Bhavika) www.icicihfc.com/property-auction





डीमैट, एसआईपी

• सेन्ट गृह लक्ष्मी

• सेन्ट क्वीन

• सेन्ट ईवी टू-व्हीलर

• स्टैंड-अप इंडिया योजना

• देशभर में 90 महिला समर्पित शाखाएं

• जीवन बीमा, सामान्य बीमा, म्यूचुअल फंड,

आकर्षक एवं सहज रिटेल तथा एमएसएमई ऋण



www.centralbankofindia.co.in | हमे फॉलो करें f 🏿 🗶 i 🕞 Centralbankofindia | हमे मैसेज करें 🚫 7900123123